



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978/श्रावण 28, 1900

No. 164]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978/SRAVANA 28, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1978

सार्वजनिक सूचनाएं

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 35/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र) असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है—

1. उप-क्रमांक 1402, 1403, 1404 और 1413 के अन्तर्गत निम्नलिखित मोट अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“नोट:—प्रतिप्रदायगी की उपर्युक्त दर से, प्रयुक्त पैकिंग सामग्री, यदि कोई हो, पर प्रतिप्रदायगी शामिल नहीं है।”

2. यह सार्वजनिक सूचना जून 1978 के पहले दिन से लागू हुई मानी जायेगी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Indirect Taxes Division)

New Delhi, the 19th August, 1978

PUBLIC NOTICES

No. Drawback/PN-35/78.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification

523 GI/78

No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary, dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.

1. Under Sub-Serial No. 1402, 1403, 1404, and 1413 the following Note shall be inserted, namely :—

“Note.—The above rate of drawback is exclusive of drawback on packing materials used, if any.

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1978.

सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 36/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है—

उपक्रमांक 3803 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

क्रम सं०	माल का विवरण	प्रति प्रदायगी का दर
1	2	3
3803	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 27 के	

(889)

1	2	3
अन्तर्गत निर्दिष्ट से निम्न एल्युमिनियम से बनी वस्तुएँ—		
(i) एल्युमिनियम की 0.56 मि० मी० और 1.22 मि० मी० के बीच की मोटाई की वृत्ताकार और अशकृताकार आकृति की वस्तुएँ।	4.80 रु० (केवल चार रुपये और अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।	
(ii) एल्युमिनियम की वस्तुएँ, जो गीट्स सक्लिस् तथा स्टिप्स से विनिर्मित हों, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों, अर्थात् जिसमें ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुएँ शामिल नहीं हैं।	6.50 रु० (केवल छः रु० और पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।	
(iii) एल्युमिनियम की वस्तुएँ जो ऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित वस्तुओं से निम्न हों, और जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हों।	4.60 रु० (केवल चार रुपये और साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।	

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1978 के प्रथम दिन प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

**No. Drawback/PN-36/78.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For sub-serial No. 3803 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-S. No.	Description of goods	Rate of drawback
3803	Articles made of Aluminium other than those specified under item 27 of the First Schedule of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) :—	
	(i) Circular and oval shaped aluminium articles of thickness between 0.56 mm and 1.22 mm.	Rs. 4.80 (Rupees four and paise eighty only) per kg.
	(ii) Aluminium articles manufactured from sheets, circles and strips, not elsewhere specified i.e. excluding articles mentioned at (i) above.	Rs. 6.50 (Rupees six and paise fifty only) per kg.
	(iii) Aluminium articles other than those mentioned in (i) and (ii) above, not otherwise specified.	Rs. 4.60 (Rupees four and paise sixty only) per kg.

The Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1978.

सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 37/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 3831 और तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उप-क्रम सं०	विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
3831	एल्युमिनियम के छे	400.00 रु० (केवल चार सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

यह सार्वजनिक सूचना जून, 1978 के पहले दिन से लागू हुई मानी जाएगी।

**No. Drawback/PN-37/78.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

For sub-serial No. 3831 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

Sub-S. No.	Description	Rate of drawback
3831	Aluminium Ingots	Rs. 400.00 (Rupees four hundred only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of June, 1978.

सं० प्रतिप्रदायगी/सां० सू० 38/78.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क, प्रति प्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रति प्रदायगी/सां० सू० 1, दिनांक 15 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उप-क्रमांक 2629 की मख (क) के सामने 'प्रतिप्रदायगी की दर' स्तम्भ में "ऊन अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—  
"कम्बल के प्रति किलोग्राम"।

2. यह सार्वजनिक सूचना सितम्बर, 1977 के 18 वें दिन से लागू हुई मानी जाएगी।

महेश कुमार, अवर सचिव

**No. Drawback/PN-38/78.**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India—Extraordinary—dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amended from time to time :—

1. In the Column 'Rate of drawback' against item (a) of sub-serial No. 2629 the words "per kg. of the wool content", the following shall be substituted, namely :—

"per kg. of blankets".

2. This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 18th day of September, 1977.

MAHESH KUMAR, Under Secy.